

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	--	--

12-08-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।            SDO Sb. <u>अन्य शिवालय में पेश होने के</u>            कारण पत्रावली वास्ते <u>जमान स्टेट</u>            दिनांक <u>06-10-2025</u> को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> रीडर</p>	
06-10-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।            SDO Sb. <u>अन्य शिवालय में पेश होने के</u>            कारण पत्रावली वास्ते <u>जमान स्टेट</u>            दिनांक <u>06-10-2025</u> को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> रीडर</p>	
03-11-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील ..... वकील फरीकेन            उपस्थित। ..... हेतु समय चाहा! समय            दिया जाकर पत्रावली वास्ते <u>जमान स्टेट</u>            आईन्दा दिनांक <u>16-11-2025</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
16-12-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील ..... वकील फरीकेन            उपस्थित। ..... हेतु समय चाहा! समय            दिया जाकर पत्रावली वास्ते <u>जमान स्टेट</u>            आईन्दा दिनांक <u>05-02-2026</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
22-12-2025	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी / वादी ने जमाने अहिकता            प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी/वादी            ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि            वादी व प्रतिवादी का शरीरनामा हो गया है। वादी उक्त            प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उक्त            प्रकरण जो इसी स्टेशन पर निस्तारण करवाना चाहिए            है। लिहाजा प्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र            स्वीकार किया जाकर वादी वाद जमाने विज्ञापन में            इसी स्तर पर आदिष्ट किया जाता है। पत्रावली वाद            तकनीक पूर्ति वाणिज्य नम्बर से काम होकर दायित्व            दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> नि पत्रावली</p> 